

Paul Merchants

Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679

Corp. Office. : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713

Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000

www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

PML/BSE/CS/2023/127

Date: August 29, 2023

Corporate Relations Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

SUBJECT:- Public Notice In respect of Information regarding holding of Annual
General Meeting of the Company through Video Conference (VC) / Other
Audio-Visual Means (OAVM)

REF: (i) MCA General Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on the subject

(ii) Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

SCRIP CODE: - 539113

Dear Sir,

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by MCA read over its earlier Circulars on the subject with particular reference to Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on the subject and SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read over its earlier circulars on the subject, have permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Further, as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with aforesaid Circulars, the Company has decided to hold its 39th Annual General Meeting ('AGM') on Friday, the 29th day of September, 2023 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).

Pursuant to the MCA General Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 read over its earlier Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on the subject, and Regulation 30



Paul Merchants

Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company
CIN : L74900DL1984PLC018679
Corp. Office. : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713
Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000
www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper notice published on Tuesday, August 29, 2023 in the Newspapers "The Financial Express" and "Jansatta" in respect of information regarding holding of the 39th AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

The aforementioned newspaper publication may also be accessed on the website of the Company at www.paulmerchants.net.

Further, the requisite information as per Regulation 30 read with Para No. 12 of Para A of part A of Schedule III of SEBI LODR Regulations read over with Para No. 12 of Para A of Part A of Annexure I SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015, Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and Para No. 12 Para A of Part A of Annexure I of Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 dated July 13, 2023, to the extent applicable to the matter is as under:-

- **Date of Notice** The Public Notice has been published in the Newspapers "The Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition) on 29-08-2023.
- Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.:- This is a Public Notice containing the contents as specified in MCA General Circular no.10/2022 dated December 28, 2022 read with its earlier Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on holding of AGM of the Company through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"). As such the details about Agenda, Resolutions and manner of approval are not applicable. Further, the contents of the enclosed copy of publication of Notice of 39th Annual General Meeting and E Voting may be read as a part of this disclosure.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you, Yours faithfully.

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
FCS 5046

Enc.:- Newspaper publications

XPRO INDIA LIMITED

CIN: L25209WB1997PLC085972 Registered Office: Barjora Mejia Road, P.O. - Ghutgoria Tehsil - Barjora, Dist. - Bankura, West Bengal - 722 202

Tel.: 91-9775301701; Email: cosec@xproindia.com; Website: www.xproindia.com Notice of Postal Ballot and Remote E-Voting

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Rules" (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"), and any other applicable laws, rules and regulations, if any, Xpro India Limited (the "Company") is seeking approval of the Members of the Company by way of Postal Ballot through remote e-voting only in respect of the following Special Resolutions

Item no.	Brief description of the Resolutions	Resolution type
1	Appointment of Sri Manoj Mohanka (DIN: 00128593) as an Independent Director of the Company.	Special
2	Re-appointment of Sri C Bhaskar (DIN: 00003343) as Managing Director & Chief Executive Officer of the Company for a term of three years with effect from January 1, 2024 and remuneration payable to him.	Special

The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Company, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Tuesday, August 22, 2023, the cut-off date.

The Company on Monday, August 28, 2023 has completed sending Postal Ballot Notice through electronic means along with the Login-ID and Password for e-voting to the Members whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ Depositories. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at www.xproindia.com, websites of the Stock Exchanges .e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/ Voting through electronic mode

In compliance with the applicable provisions of the Act, the MCA Circulars and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. The remote e-voting period shall commence on Wednesday, August 30, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Thursday, September 28, 2023 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member as on the cut-off date i.e. Tuesday, August 22, 2023. The instruction for remote e-voting are appended in the Postal Ballot Notice The Board of Directors of the Company have appointed Sri Girish Bhatia, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 3295 & CP No. 13792) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in accordance with the law and in a fair and

If any member who has registered their email address and have not received Postal Ballot Notice user ID and password for remote e-voting, such member may write to cosec@xproindia.com from their registered email ID to receive the same.

The Members who have not registered/updated their e-mail IDs so far are requested to register/update the same to get all notices, communiques, etc. from the Company, electronically, as per the following procedure:

For Physical shareholders - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) AADHAAR (self-attested scanned copy) and duly filled and signed Form ISR -1 (available on the website of the Company) by email to the Company/RTA.

For Demat shareholders - please update your e-mail IDand mobile number with your respective Depository Participant (DP).

The results of remote e-voting will be announced on or before Tuesday, October 3, 2023 and the ame along with the Scrutinizer's Report will be displayed on the Company's website www.xproindia.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/ and will also be communicated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office for at least 3 days from the date of declaration of results.

In case you have any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evotingindia.com/ under help section or may contact Sri Kamal Kishor Sewoda, Company Secretary, Xpro India Limited, "Birla Building", 2nd Floor, 9/1, R N Mukheriee Road, Kolkata - 700 001, West Bengal, Email: cosec@xproindia.com or Sri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to the Toll free no. - 1800 22 55 33 By order of the Board

Place: Kolkata

For Xpro India Limited Kamal Kishor Sewoda Company Secretary

Dated: August 28, 2023 Membership No.- A37954

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

(CIN: L74899DL1956GOI002674 Regd. Off.: Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110001

Ph. No.: 011-23313177, Fax: 23701123, Website: www.stclimited.co.in

NOTICE TO MEMBERS OF 67TH ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

This is in continuation to our earlier communication dated August 25, 2023, whereby

Members of STC India Limited ("the Company") were informed that in compliance with the

provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR)

Regulations" Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No.

14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular

No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022

and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/PoD-

2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of

India ("SEBI Circular"), the 67" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be

held on Thursday, September 21, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")

Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members

The Notice of 67° AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2023 along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility

including e-voting have been sent on Monday, August 28, 2023 through e-mail to all those

Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar

and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in

accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also

available on Company's website (www.stclimited.co.in), Stock Exchanges' websites

(www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR)

Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of

India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM)

The remote e-voting shall commence on Monday, September 18, 2023 (09.00 A.M.) and

ends on Wednesday, September 20, 2023 (05.00 P.M.). During this period, members

may cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be

The Members who will have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their

Once the Member casts vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change

it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting

Smt. Archana Bansal, Managing Partner M/s. Blak & Co (COP No.11714), has been

appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in

the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 13, 2023

("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the

Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall

only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the

AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for

Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date

of electronic dispatch of the Notice of 67th AGM and holding shares as on the Cut-off date,

may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the

If you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please

Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder,

scanned copy of the share certificate (front and back), self attested scanned

copy of PAN card, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other

document as proof of address by email to Company (cs@stclimited.co.in)/

Please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or

NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated

Account statement, self-attested scanned copy of Aadhar Card or any other

document as proof of address to Company (cs@stclimited.co.in)/ RTA email

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder

and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share

Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 14, 2023

The result of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e. on or

before Saturday, September 23, 2023 and results so declared along with the

consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website

If you have any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting

System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual

available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager at 022-23058542 or

to Thursday, September 21, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 67" AGM.

(www.stclimited.co.in) and CDSL's website (www.evotingindia.com).

Notice of 67° AGM or by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

RTA email id (admin@mcsregistrars.com).

id (admin@mcsregistrars.com).

services provided by CDSL on all resolutions set forth in the Notice of the 67" AGM.

at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 67° AGM.

Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com).

votes again through e-voting facility available during the AGM.

during the AGM are provided in the Notice of the 67° AGM.

disabled by CDSL for voting.

information purposes only.

Physical

Demat

Holding

toll free no. 1800 22 55 33.

Crompton

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited CIN: L31900MH2015PLC262254

Registered & Corporate Office: Tower 3, 1" Floor, East Wing, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070, India Tel.: +91-22-6167 8499 Fax: +91-22-6167 8383 Website: www.crompton.co.in E-mail: crompton.investorrelations@crompton.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act") read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) there of for the time being in force), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17 /2020 dated April 13, 2020 and the latest one being General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, and subject to all other applicable laws and regulations, the Notice of Postal Ballot along with Explanatory Statement appended thereto ("Notice"), has been duly sent on Monday, August 28, 2023 through electronic mode to the Members whose email ids are registered in the records with the Company/ Depositories as on cut-off date i.e. Friday, August 11, 2023 for seeking their approval on the under mentioned Resolution:

 Alteration in the Articles of Association of the Company For the business as set out in the Postal Ballot Notice, the Company is providing e-Voting facility to all the members to enable them to cast their vote electronically. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-Voting facility to all its Members.

Details of Postal Ballot schedule are as follows:-

Sr. No.	Particulars	Schedule
1.	Date & Time of commencement of voting	Wednesday, August 30, 2023 at 9.00 A.M.
2.	Date & Time of end of voting	Thursday, September 28, 2023 at 5.00 P.M.
3.	Websites where Notice of Postal Ballot is available	www.crompton.co.in www.evotingindia.com
4.	Contact details of the person responsible to address grievances relating to E-voting by electronic means	Name: Mr. Anubhav Saxena Designation: Deputy Manager Address: 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013, India. Tel No.: 022- 4886 7000 Email ID: evoting@nsdl.co.in

exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com on which the equity shares of the Company are listed and on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com.
As per the MCA Circulars, the hard copy of the notice along with the postal ballot form and postage prepaid self-

addressed business reply envelope has not been sent to the members for this postal ballot and the members are requested to communicate their assent or dissent through remote e-Voting system only A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial interest owners maintained by the depositories as on Friday, August 11, 2023 shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot through e-Voting and any person who is not a member as on that date should treat this Postal Ballot notice for information purpose only. The manner and instructions for remote e-Voting, registering email addresses for receiving the notice of postal ballot.

obtaining login id and password is given in the postal ballot notice in detail. The manner of registration of email addresses and mobile number of those members whose email address are not

Physical Holding Kindly submit Form ISR-1 to update PAN, Postal Address with PIN, Email Address & Mobile Number including demat and bank account details. Form ISR-1 is available on the website of You are requested to forward the duly filled-in documents along with the related proofs as mentioned in the form to the following address: KFin Technologies Limited (Unit: Crompton Greaves Consumer Electricals Limited) Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Ph: +91 40-67162222 Email: einward.ris@kfintech.com Demat Holding Register/update their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants

The Board of Directors of the Company have appointed Ms. Ashwini Inamdar (FCS 9409) or failing her Ms. Alifya Sapatwala (ACS 24091) of M/s. Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries (ICSI Unique Code: P1996MH007500) as the Scrutinizers for conducting the postal ballot through e-voting process in a fair and

Members are requested to note that the e-Voting shall end at 5:00 P.M. on Thursday, September 28, 2023 (closure date) and e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting after closure date. The Scrutinizer will submit its report to the Chairman or any other person authorized by the the Chairman after the completion of scrutiny of the e-Voting, and result of the e-Voting by Postal Ballot will be announced on or before Saturday, September 30, 2023 and will also be displayed on the Company's website at www.crompton.co.in. and on the website of the NSDL at www.nsdl.co.in, and communicated to the Stock Exchanges

By order of the Board For Crompton Greaves Consumer Electricals Limited

Place: Mumbai Date: August 28, 2023

Rashmi Khandelwal Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A28839

ASHIANA HOUSING LIMITED

CIN: L70109WB1986PLC040864

Registered Office: 5F, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata-700071 Head Office: Unit No. 4&5, 3rd Floor, Plot No. D-2, Saket District Center, Saket, New Delhi-110 017 Phone Nos.: 011 42654265, FAX No.: 011 42654200

E-mail: investorrelations@ashianahousing.com, Company's website: www.ashianahousing.com Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on

Thursday, 28th September 2023 at 11.30 A.M. through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars number 14/2020 dated 08th April, 2020, circular no. 17/2020 dated 13th April, 2020, circular no. 20/2020 dated 05th May 2020, circular no. 02/2021 dated 13th January 2021, circular no. 21/2021 dated 14th December 2021, circular no. 02/2022 dated 05th May 2022, and circular no. 10/2022 dated 28th December 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business set forth in the notice convening the Annual

Report for the financial year 2022-23 will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The said Notice and Annual Report will also be available on Company's website at www.ashianahousing.com and on the website of the National Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange where shares of the Company are listed at www.nseindia.com, and www.bseindia.com, respectively. As per the SEBI circulars no physical copies of the notice of the annual general meeting and annual report will be sent to any member. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, and clause 42 of the SEBI (Listing Obligations and

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 22nd September 2023 to 28th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of annual general meeting and taking record of shareholders entitled to dividend, for the financial year ending on 31st March, 2023, if approved by the shareholders in the ensuing annual general meeting. Shareholders whose names appear in the books as Beneficial Owners as at the close of the business hours on 21st September 2023 (Thursday) will be entitled for the dividend:

Shareholders who have not registered their email address with the company/ Depository Participant, or have not updated their bank account mandates for receipt of dividend, please follow these instructions:

a) Members holding shares in physical mode are requested to register/ update their details in the prescribed

- form ISR 1 and other relevant forms, with our registrar and share transfer agent (RTA) for registering/updating their details, Email-Id, Folio Number, Name of the Shareholder, Mobile Number, and Self Attested scan copy of Permanent Account Number (PAN), at Beetal House, 03rd Floor, 99 behind Local Shopping Centre, Madangir, Delhi-110062. Formats of form ISR 1 and other related forms are available on the website of the company at https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3.
- b) Members holding shares in electronic mode are requested to register /update their email -id with their respective Depository participants (DPs) for receiving all communications from the Company electronically.
- Name and branch of the Bank in which shareholder wish to receive dividend, bank account type, bank account number, MICR Code, IFSC Code and a scan copy of cancelled cheque bearing name of the first holder to be provided to the company at investorrelations@ashianahousing.com alternatively at beetal@beetalfinancial.com.

Facility of e-voting:

The company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') of NSDL to all its members to cast their votes electronically before the annual general meeting on resolutions set out in the notice of the annual general meeting. Additionally, the company shall also provide the facility of voting through remote e-voting system during the meeting.

The remote e-voting shall commence on 25th September 2023 (Monday) at 09:00 am and shall end on 27th September 2023 (Wednesday) at 05:00 pm.

The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting during the annual general meeting is 21st September 2023. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the DPs as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, or e-voting during the annual general meeting.

Manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during the AGM:

a) Members will have an opportunity to cast their votes on the business as set forth in the notice of the Annual General Meeting through remote e-voting system and e-voting during the AGM as per the procedure detailed in the Notice of Annual General Meeting. b) The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be

made available to the members through e-mail after they successfully register their email addresses in

the manner provided above. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 pm on 27th September 2023 (Wednesday). Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the annual general meeting may participate in the annual

general meeting through video conference/ OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the annual general meeting. The details of the person responsible to redress the grievances connected with facility for voting by electronic

means is mentioned in the notice of the annual general meeting.

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof. The shareholders are requested to update their residential address, email id, mobile number, Adhaar, and PAN with the DP (if shares held in electronic form) and RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited (if shares are held in physical form) to enable compliance with TDS provisions.

> By Order of the Board For Ashiana Housing Ltd. Sd/-

Nitin Sharma (Company Secretary & Compliance Officer)



PAUL MERCHANTS LTd.® (An ISO 9001:2015 Certified CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 (An ISO 9001:2015 Certified Co.) Ph.0172-5041786. Fax: 0172-5041713 (CIN: L74900DL1984PLC018679) E-mail: info@paulmerchants.net Website: www.paulmerchants.net

REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011 47529460 NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"). REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE **NOTICE** is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of M/s Paul Merchants Limited will be

held on Friday, the 29th day of September, 2023 at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the Business, as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by MCA read over its earlier Circulars with particular reference to Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on the subject and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI read over its earlier circulars on the subject, without the physica presence of Members at a common venue. The special business proposed to be transacted at the ensuing AGM as set out in the Notice, has been considered as unavoidable by the Board of Directors of the Company Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail: In compliance with the above laws and applicable circulars, only

electronic copies of the Notice convening the 39th AGM along with the Annual Report for FY 2022-23, will be sent within prescribed timelines by e-mail to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company and/or the Depository Participant. Physical copy of full annual report shall be sent to those shareholders who request for the same and request in this regard may be submitted to investor.redressal@paulmerchants.net. Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only, which shall be provided by the Company through Central Depository Services (India) Limited, the details of which have been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Availability of the Notice of AGM and Annual Report on the Website: The Annual Report of the Company for financial year 2022-23 containing inter alia the Notice of the 39th Annual General Meeting will be available on the website of the Company

i.e. www.paulmerchants.net, on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com and on the website of CDSL a The manner in which the Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email

addresses with the company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the Members including the ones holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered, may cast their votes through remote e-Voting or through e-voting system during the AGM, after registering their e-mail addresses by

following the below process:-Send the following documents to the Company at investor redressal@paulmerchants.net or to the RTA of the Company at 1. **For Physical shareholders:** For updating the Email, PAN and KYC details, issue specific authorization as provided in

Form ISR-1. This Form is available on the Website of the Company www.paulmerchants.net 2. For Demat shareholders: Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders: Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings The persons who have not registered their email addresses with the company can get the same registered with the company

by following the above process. All the Members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish/update their Email ID, Mobile No., PAN and other KYC details through Form ISR-1, to furnish the Nomination as provided in Rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 through Form SH-13 or to opt out from giving the Nomination through Form ISR-3 and to change the Nomination through Form SH-14 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37

dated March 16, 2023. The forms are also available on the website of the Company at www.paulmerchants.net. This wil avoid freezing of the folios on or after October 01, 2023. SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTABM/ P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in demat mode only. The remote voting period begins on 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 26, 2023 and ends on 05:00 p.m. (IST) on Thursday, September 28, 2023. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 22-09-2023 may cast their vote electronically. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Those persons, who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members as of the cut-off date i.e. Friday, 22-09-2023 are requested to view the Annual Report of the Company on the website of the Company at www.paulmerchants.net or on the

website of CDSL (www.evotingindia.com) for instructions relating to e-voting and for attending the AGM. The detailed procedure for obtaining login Id, password, authentication and exercising remote e-voting and evoting at the AGM is already provided in the instructions given in the Notes to the Notice of AGM. For further instructions on remote evoting, evoting during AGM and for attending and participating in the AGM through VC/OAVM, Members may refer to the Notes to the Notice of the AGM. For queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, Members can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at 022-

23058738 and 022-23058542/43 and Toll Free No.1800225533. The procedure and instructions for remote e-voting for Individual shareholders holding securities in Demat mode (CDSL/NSDL), for shareholders holding securities in Physical form and shareholders other than individual holding securities

in Demat form have been detailed in the Notes to the Notice of the AGM. Notice of Book Closure: NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15-09-2023 to 21-09-2023 (both days inclusive) for the purpose of 39th Annua General Meeting of the Company.

Date: August 29, 2023 Place: Chandigarh

HARDAM SINGH **COMPANY SECRETARY** FCS 5046

For PAUL MERCHANTS LTD

KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED

(Formerly Known as KURLON LIMITED)

(CIN: U17214KA1962PLC001443)

Regd. Office: # N-301, 3rd Floor, North Block, Manipal Centre, 47 Dickenson Road, Bangalore - 560 042. Phone: 080 - 4031 3131, E-mail: secretary@manipal.com

NOTICE

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that pursuant to section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings issued by the institute of Company Secretaries of India (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) read with read with the General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021 and 3/2022 dated 5th May, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), approval of the members of M/s Kanara Consumer Products Limited (hereinafter called as "the Company") is being sought for the following resolutions by way of postal ballot through remote e-voting process ('remote e-voting').

1.	To Approve Disinvestment in Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
2.	Approval for Sale / Transfer / Disposal of Gwalior Factory including Land, Building, Plant and Machinery ('Gwalior Undertaking') of the Company to Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
3.	Approval to Sale / Transfer / Disposal of Bhubaneshwar Land of the Company to Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
4.	Approval to Sale / Transfer / Disposal of Dabaspet land of the Company to Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
5.	Approval to Sale / Transfer / Disposal of Uttrakhand land of the Company to Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
6.	Approval for Leasing of Yeshwanthpura Land along with buildings and structures standing thereor of the Company to Kurlon Enterprise Limited under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
7.	To authorise the Board to enter into Related Party Transactions with Kurlon Enterprises Limited under Section 188 of the Companies Act, 2013.
8.	To approve adoption of amended and restated Articles of Association (AOA) of the Company.

Members are hereby informed that:

SI. No. Description of Special Resolutions

- The Company has completed the dispatch of postal ballot notice only through email on Monday, August 28, 2023, to those members whose email addresses are registered with the Company / depositories on August 25, 2023. Further in accordance with the aforementioned circulars, physical copy of the postal ballot notice along with postal ballot form and pre-paid business reply envelop is not/will not sent to the members. Hence, the members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. The Company has engaged the services of NSDL for providing the remote e-voting facility.
- 2. Those members, whose email addresses are not registered, are requested to refer to the procedure mentioned in the notes to postal ballot notice being sent by the RTA / NSDL, to cast their votes electronically and also to register their email id with Company / RTA and depositories.
- 3. The remote e-voting shall commence from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, August 30, 2023 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 28, 2023. The remote e-voting module shall be disabled thereafter by NSDL. Once the vote on resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. The detailed procedure / instructions for remote e-voting are specified in the notes to the postal ballot notice.
- 4. The cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to cast their vote through remote e-voting is Friday, August 25, 2023 (cut-off date). The members whose name appears in the register of members / register of beneficial owner of the Company as on cut-off date shall only be entitled to avail the remote
- 5. The company has appointed Mr. Deepak Sadhu (Membership No. : 39541) of Deepak Sadhu and Associates, Practicing Company Secretaries as scrutinizer for conducting the postal ballot process.
- 6. In case of any queries, members may refer to the FAQ for shareholders and e-voting user manual for shareholder's available at the download section of www.evoting.nsdl.com or Call on Toll Free No. : 18001020990 and 1800224430 or send a request to Ms. Soni Singh, NSDL at evoting@nsdl.co.in
- 7. The results of the postal ballot shall be declared on or before Friday, September 29, 2023 by the chairman of the board of the Company.

For and on behalf of the Board For KANARA CONSUMER PRODUCTS LIMITED (Formerly Known as Kurlon Limited)

> Monu Kumar Company Secretary

Date: 28 August, 2023 Place: New Delhi financialexp.epap.in

Vipin Tripathi

The State Trading Corporation of India Limited

Company Secretary

For and on behalf of

Date: 28.08.2023

Place: New Delhi

ACS 21191

New Delhi

Place : Bangalore

Date: 28-08-2023



जनसता

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालयः मुख्य अभियंता (एम)-XI कमरा सं. 110, पुराना शिव मंदिर मार्ग, जल सदन, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024

ईमेल : eetdjbm11@gmail.com फोन : 011-29810956

एनआईटी सं. 30/ईई(टी) एम-XI/2023-24



ई-प्रापण सॉल्यूशन के से निविदा जारी माध्यम से निविदा प्राप्ति की तिथि की अंतिम तिथि/समय DJB 246678 सीवर क्लीनिंग मशीन के टिप मॉनीटरिंग के लिए क्लाउड बेस सर्वर एवं एक वर्ष के 2.00 बजे अप. तक डेटा बैक अप के साथ ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस, एआईएस-140) के सॉफ्टवेयर के मॉनीटरिंग सहित प्रापण संस्थापन तथा रखरखाव इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शतो सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखी

जा सकती है। पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 107 (2023-24) 'कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

(प्रवीण कुमार) कार्यपालक अभियंता (टी)

जाआरएम आवरसाज लिमटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLCO64OO7

पंजीकृत कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.grmrice.com

ई-मेल : investor.relations@grmrice.com | दूरभाष : 011-47330330

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक ईचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, 29वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 20 सितंबर 2023 से मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन सिम्मिलित)

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सुचना आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिता	इमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गयी प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) शामिल हो। कृपया अपने बैंक विवरण को मूल कैंसिल्ड चेक के साथ हमारे आरटीए (यानी यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34,2वीं मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली 100020 को पत्र के साथ फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए भेजें)
डीमैट धारिता	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

एजीएम के नोटिस में उस तरीके के बारे में निर्देश शामिल होंगे जिसमें शेयरधारक एजीएम में शामिल हो सकते हैं और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को लागू कानुनों के अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर

उचित समय पर भेजी जाएगी किसी भी प्रश्न के मामले में, कोई सदस्य आरटीए को info@masserv.com या कंपनी को cs@grmrice.com पर एक ईमेल भेज

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

दिनांक: 28/08/2023

सचिन नारंग कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: दिल्ली



पॉल मचेन्ट्स लि.

(आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN: L74900DL1984PLC018679) कॉर्पो. कार्या.: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, फोन: 0172-5041786, फैक्सः 0172-5041709, ई-मेलः info@paulmerchants.net, वेबसाइटः www.paulmerchants.net पंजीकृत कार्या.: डीएसएम 335, 336, 337, 3रा तल, डीएलएफ टावर, 15, शिवाजी मार्ग, नज्फगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोनः 011-47529460

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ईवोटिंग जानकारी और किताब बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) सेबी द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र के साथ पठित SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के विशेष संदर्भ में परिपत्र, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 एवं परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित एमसीए द्वारा परिपत्र सं 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन मे एजीएम सुचना में निर्धारित अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए सामान्य स्थान पर सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ["वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12.00 (आईएसटी) बजे पर आयोजित की जाएगी। नोटिस में तय किए गए आगामी एजीएम में पूरा किए जाने वाले विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना गया है . - **मेल के माध्यम से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का भेजना**:- उपरोक्त कानूनों और लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 39वीं एजीएम बुलाने के नोटिस की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी सदस्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिनके ई–मेल पते हैं कंपनी और/या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं और इस संबंध में अनुरोध investor.redressal@paulmerchants.net पर प्रस्तुत किया जा सकता है। शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जो कंपनी द्वारा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसका विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओवीएएम के

के साथ–साथ 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना शामिल है, कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी।

के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिनके ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे सदस्य नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई–मेल पता दर्ज करने के

बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं:-

निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर या कंपनी के आरटीए को ramap@alankit.com पर

भौतिक शेयरधारकों के लिए: - ईमेल अपडेट करने के लिए, पैन और केवाईसी विवरण, फॉर्म आईएसआर-1 में दिए गए अनुसार विशिष्ट प्राधिकरण

डीमैट शेयरधारकों के लिए:- कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए**:- कपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें जोकि ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से फॉर्म एसएच-13 के माध्यम से कंपनियों (शेयर पुंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) में दिए गए नामांकन प्रस्तृत करने के लिए फॉर्म आईएसआर-1 के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन और अन्य केवाईसी विवरण प्रस्तुत/अद्यतन करना आवश्यक है या 16 मार्च, 2023 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 के अनुसार फॉर्म आईएसआर-3 के माध्यम से नामांकन देने और फॉर्म एसएच-14 के माध्यम से नामांकन बदलने का विकल्प चुनने का विकल्प है। फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर उपलब्ध है। इससे 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद फोलियो को फ्रीज होने से बचाया

जा सकेगा। सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTABM/ P/CIR/2022/8 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को केवल डीमैट मोड में प्रतिभृतियां जारी करना अनिवार्य कर दिया है। रिमोट वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 (आईएसटी) से शुरू होगी और वीरवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22-09-2023 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे व्यक्ति, जिन्होंने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22-09-2023 के अनुसार

सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, उनसे ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों और एजीएम में भाग लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर या सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट देखने का अनुरोध है। एजीएम में लॉग इन आईडी. पासवर्ड, प्रमाणीकरण और रिमोट ई-वोटिंग और इवोटिंग का प्रयोग करने की विस्तत प्रक्रिया पहले से ही एजीएम की सचना के नोटस में दिए रिमोट इवोटिंग, ईवोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और भाग लेने के बारे में आगे के निर्देश के लिए, सदस्य एजीएम के

कर सकते हैं। डीमैट मोड (सीडीएसएल/एनएसडीएल) में प्रतिभृतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश, भौतिक रूप में प्रतिभृतियों को रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत धारक प्रतिभृतियों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए एजीएम की सूचना

बैठक के उद्देश्य के लिए 15.09.2023 से 21.09.2023 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

तिथि: 29 अगस्त, 2023

(kotak

काटक महिद्रा बक लिमिटड पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी , सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051, शाखा कार्यालयः 7वीं मंजिल, अंबादीप बिल्डिंग, 14वां केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस,

तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर,जिन्होंने **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटे** (केएमबीएल) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है) इसका शाखा कार्यालय 7वीं मंजिल, अंबादीप बिलिंडग, 14व केजी मार्ग, नई दिल्ली–110001 पर है, जो ऋण सुविधा की व्यापक ईएमआई चुकाने और/या केएमबीएल को अप क्रेडिट सुविधाओं के ब्याज की पूर्ति करने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुस उनके ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकत किया गया है। उधारकर्ताओं ने केएमबीएल को अचल संपत्तियों व सुरक्षा प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आज तक बकाया ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वा केएमबीएल को बकाया और देय राशि का विवरण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर साथ—साथ सामान्य रूप से आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केएमबीएल के प्राधिकत अधिका होने के नाते, सुरक्षित ऋणदाता ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्त अधिनियम, २००२ (सरफेसी)के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर के खिलाफ कार्रवा शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता ने इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दश ्र गुर बकाया को चकाने में विफल रहते हैं. तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2) तहत सरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसमें उसे संपत्तियों पर कब्ज करने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के सा

उधारकर्ताओं / गारंटर और बंधककर्ता का नाम भागीदारों / अधिकत हस्ताक्षरकर्ताओं, श्री अंकित मित्तल, श्री दर संख्या 1790 के हिस्से पर झिंगपुरा (एलपी न संचित मित्तल के माध्यम से, **सभी का पता:** खसरा नंबर 243, रोड सहार), तहसील और जिला मथुरा (युपी) के प एनएच—२.गांव, गौहरी तहसील छाता, मथुरा—281001, **२. श्री**िस्थत"एक प्लॉट, क्षेत्रफल 587.63 वर्ग मीट **अंकित मित्तल...** (बंधककर्ता) खसरा नंबर 243, एनएच–2, गांव, "चौहद्दी :–उत्तर:–नगर पालिका की खाली भूमि गौहारी तहसील छाता, मथुरा—281001, इसके अलावाः— श्री पूर्वः—श्रीमती फुलकावाली की भूमि, दक्षिणः— श्री तरूः अंकित मित्तल 64, डैम्पियर नगर, मथुरा—281001, **3. श्रीमती** गर्ग की भूमि, पश्चिम:— लगभग 25 फीट चौड़ी सड़क मीनू मित्तल...(बंधककर्ता) खसरा नंबर 243, एनएच–2, गांव, गौहरी तहसील छाता, मथुरा—281001, **इसके अलावाः** श्री मीन् मित्तल 64, डैम्पियर नगर, मथुरा–281001 **दिनांकः 17/08/2023 बकाया राशिः** 17/08/202

दिनांकः 29/08/2023 स्थानः मथुरा कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो फ्लाजा, परिवहन मार्ग, जवपुर-302001 (राजस्थान),

ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com फोन : 0141-2943037, CIN : L67120RJ1990PLC005371 33वीं वार्षिक साधारण, ई-वोटिंग संबंधी सचना

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सुचित किया जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसी के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में और संबंधित सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर विनियमन'') के साथ पठित कॉपरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा बुधवार 20 सितम्बर 2023 को दोपहर 02:00 बजे आईएसटी पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडिया कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वीज्अल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा द्वारा 33 वीं एजीएम सुचना में दिए गए व्यवसायों को

एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

लेन-देन करने का निश्चित किया है । 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 33वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सचना, ई-वोटिंग विवरण सहित वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 33वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ एमसीए सर्कुलर और सेबी , सर्कुलर के अनुसार पंजीकृत है उन्हें ई-मेल के माध्यम से मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को भेज दी गई है यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.continentalsecuritiesltd.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपन्नों के अनपालन में सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से सीडीएसएल द्वारा 33वीं एजीएम के नोटिस मे निर्धारित सभी प्रस्तावों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है । रिमोट ई-बोटिंग रविवार, 17 सितंबर 2023 (प्रात: 10 बजे आईएसटी) से शरू होगी और मंगलवार

19 सितंबर 2023 (सार्य 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट -बोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी वीसी/ओएबीएम

सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट दे देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी

जाएगी। रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तत निर्देश 33वीं एजीएम के सुचना में दिए गए हैं। श्री अजय खंडेलवाल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपर को संपर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और

पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए कंपनी द्वारा के स्क्रुटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है । सदस्यों को बोटिंग अधिकार बुधवार, 13 सितंबर, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के पेड-अप इक्किटी श्रोयर पंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे । एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टार मे या कट-ऑफ तिथि के अनसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वे ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकृत होंगे, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है। इस नोटिस को केवल सचना जानकारी के उददेश्य से समझे । कते कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

राजेश खुंटेटा (प्रबंधन निदेशक) दिनांक: 28.08.2023 DIN: 00167672

एलायस इटाग्रटंड मटालक्स लामटंड सीआईएन : L65993DL1989PLC035409 पंजीकृत कार्यालय : डीएससी-327, दूसरी मंजिल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017

दूरभाष : +91-11-40517610, ई-मेल आईडी : alliance.intgd@rediffmail.com; वेबसाइट : www.aiml.in 34वीं वार्षिक आम बैठक का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित होने वाली एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड की ऑडियो वीडियो माध्यम से 34वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के 31 जुलाई, 2023 के नोटिस की निरंतरता में जारी किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 05 अगस्त, 2023 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को नोटिस पहले ही प्रसारित किया जा चुका है:

कंपनी इस संचार के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की उक्त सूचना में किए गए निम्नलिखित परिवर्द्धनों को शेयरधारकों के ध्यान में लाना चाहती है: मद संख्या 04 के व्याख्यात्मक कथन में परिवर्तनः

क) मौजूदा पैराग्राफ 3 के बाद नया पैराग्राफ 4 जोड़ा जाएगा:-

यह ध्यान में रखते हुए कि आवंटिती अर्थात - फर्स्ट फोर्ज लिमिटेड को सीसीपीएस के रूपांतरण के अनुसार आवंटन कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड शेयर पूंजी के पोस्ट इश्यू के 5% से अधिक होगा, जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कीमत रु. 40/- (चालीस रुपये) मात्र) प्रति शेयर होगी, जिसमें आईसीडीआर विनियम के विनियम 166ए ('मुल्यांकन रिपोर्ट') के अनुसार श्री मनीष मनवानी, पंजीकृत मूल्यांकक (आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/RV/03/2021/14113, कार्यालय यूनिट नंबर 125, टॉवर बी-3, स्पेज आईटेक पार्क, सोहना रोड, सेक्टर-49 गुरुग्राम, हरियाणा-122018) द्वारा जारी मुल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई 2023 के साथ पठित मुल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 26 अगस्त, 2023 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रु. 39/- (उनतीस रुपये मात्र) का प्रीमियम शामिल है।

पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा जारी मूल मूल्यांकन रिपोर्ट और परिशिष्ट कंपनी की वेबसाइट www.aiml.in पर उपलब्ध होंगे।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निर्गम मुल्य का निर्धारण आईसीडीआर विनियमों ('मूल्यांकन रिपोर्ट') के विनियम 166ए के अनुसार श्री मनीष मनवानी, पंजीकृत मुल्यांकक (आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/RV/03/2021/14113) द्वारा प्रदान की गई 31 जुलाई, 2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से निर्धारित कीमत रु. 27.25/- (रुपये सत्ताईस और पच्चीस पैसे मात्र) प्रति शेयर है। "सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के अध्याय ${
m V}$ के विनियम 164(1) के अनुसार गणना की गई कीमत, मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मुल्य से अधिक होने पर, सीसीपीएस को इक्विटी शेयरों में बदलने से उत्पन्न होने वाले इक्विटी शेयर को जारी करने के लिए फ्लोर प्राइस माना गया है।"

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र उन सभी शेयरधारकों को भेज दिया गया है, जिन्हें वार्षिक आम बैठक की सुचना भेजी गई है, उक्त शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट यानी www.aiml.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगा।

एजीएम नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी सामग्री/जानकारी अपरिवर्तित रहेगी। एजीएम नोटिस को इस शुद्धिपत्र की निरंतरता और संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड के लिए

दलजीत सिंह चहल अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक

दिनांक: 28.08.2023

Chola

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 03331560

चोलामंडलम इवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड **निगमित कार्यालय :** प्रथम तल. 'डेयर हाउस', नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1) के अंतर्गत]

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण ए

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नांकित तिथि पर मांग सूचनाएं निर्गत की थीं जिनमें आपको उधारकर्ताओं के रूप में (नाम एवं पते निम्नानुसार वर्णित हैं), को उक्त सूचना में उल्लेखित बकाया राषि का राशि पर ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु मैसर्स चोलामंडलम् इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण मोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

(ऋण खाता संख्या HL11AWL000035358 & HL05AWL000013700) क. 27,60,276/- (रुपये सत्ताईस लाख साठ हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) ऋण खाता सं. अंश जो पट्टा सं. 039 पर निर्मित, कुल माप साइट का 294.44 वर्ग गज, जो ग्राम छिहत्तर मात्र) ऋण खाता सं. 2. बन्नो खान दोनों निवासी: सरकारी स्कूल के पास निभेड़ा, मुख्य मार्ग, मंडावर, राजस्थान 301404 **	उधारकर्ता / ओं का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति के विवरण	अधिग्रहण की तिथि
1 12 - 1	. HL05AWL000013700) 1. मुबारिक खान 2. बन्नो खान दोनों निवासी : सरकारी स्कूल के पास निभेड़ा, मुख्य मार्ग, मंडावर, राजस्थान 301404 अन्य पता : पट्टा नं. 39, बुक नं. 37, ग्राम निभेड़ा, ग्राम पंचायत वल्लभग्राम, तहसील किशनगढ़ बास,	13-06-2023	(रुपये सत्ताईस लाख साठ हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) ऋण खाता सं. HL11AWL000035358 & HL05AWL000013700 के समक्ष दिनांक	अंश जो पट्टा सं. 039 पर निर्मित, कुल माप साइट का 294.44 वर्ग गज, जो ग्राम — निभेड़ा, ग्राम पंचायत वल्लभग्राम, पंचायत सिमित किशनगढ़ बास, तहसील किशनगढ़ बास, जनपद अलवर (राजस्थान) में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व इसाब का मकान, पश्चिम— स्वयं की रिक्त भूमि, उत्तर— इजाजुद्दीन का मकान,	8/2(भेग्रहा

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त हर्ष उर्फ बाबू, पुत्र श्री तेजेंदर सिंह निवासी मकान नंबर आरजेड-सी/126, महावीर एन्क्लेव, भाग 1 गली नंबर 1, पालम, नई दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/2019 भा.द.सं. की धारा 411 के तहत, थाना कापसहेडा, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **हर्ष उर्फ बाब्** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **हर्ष उर्फ बाब्** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 154/2019 भा.द.सं. की धारा 411 के तहत, थाना कापसहेड़ा, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **हर्ष उर्फ बाब्** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 10,10,2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

सुश्री अपूर्वा राणा एलडी, महानगर दण्डाधिकारी-10 क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र

कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग,

दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स,

नई दिल्ली -110003, के समक्ष

हम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम-2014

के नियम 41 के मामले में 1

मै. रवलक प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग लिमिटेड

CIN: U21014UP1996PLC125607

जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी-16 साउथ साईड,

जी. टी. रोडॅ, इन्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश- 201002 में है, के मामले में ।

तद द्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता '

के कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा

।4 के तहत केन्द्र सरकार को एक आवेदन करने का

इरादा किया है जो पूर्वोक्त नियमों के साथ पढ़ा गया है और विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में एक निजी

लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तन करने के लिय इच्छुक

है। शुक्रवार दिनांक 18 अगस्त, 2023 की

आयोजित वार्षिक आम सभा में कम्पनी को इस

तरह के रूपांतरण के लिए प्रभाव प्रदान करने में

कोई भी व्यक्ति जिसके हित में कम्पनी वे

प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की

संभावना है, वह अपने रूचि के स्वरूप और क्षेत्रीय

विरोध का आधार बताते हुये हलफनामें द्वारा

समर्थित आपत्तियों को इसे नोटिस के प्रकाशन

तिथि से 14 दिनों के अंदर पंजीकत डाक से **क्षेत्रीय**

निदेशक, उत्तर क्षेत्र, एमसीएँ , बी–2 विंग,

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई

दिल्ली-110003 को भेजें तथा इसकी प्रति आवेदक

कम्पनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय

आवेदक की ओर से और उसके लिये

विजय कुमार अग्रवाल

DIN: 00640318

मै. रवलक प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग लिमिटेड

पता : सी-16 साउथ साईड,

जी. टी. रोड, इन्डस्ट्रीयल एरिया,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

20 के अनुसरण में}

वर्तमान कंपनियों के लिए लाईसेंस हेत् समाचार पत्र

में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एंड हरियाणा, चौची मंजिल,

जाईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 8 (5) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के

नियम 20 के संबंध में

क्रियामल रियल एस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U70101DL2002PTC116393)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः 6/842 मुख्य बाजार,

महरौली, नई दिल्ली-110030 में हैं, के मामले में

आम जनता को सुचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी

अधिनियम. 2013 की थारा 8 के तहत केंद्र सरकार को

तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने

के लिए 28 जुलाई, 2023 को आयोजित असाधारण

आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के

संगम-ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए, धारा 8 के

तहत अपने नाम में "प्रा**डवेट लिमिटेड"** शब्दों के बिना

कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन /

स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, तो एमसीए -21

पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत

फार्म दाखिल करके या इस सुचना के प्रकाशन की तारीख

से 14 दिनों के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पते

चौधी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019, को अपने हित की प्रकृति और

विरोध के कारण बताते हुए एक शपथ पत्र द्वारा अपनी

आपत्तियां भेजेगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित

करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को

उसके पंजीकृत कार्यालय पर निम्नलिखत पते पर भेजी

जाएंगी : 6/842 मुख्य बाज़ार, महरीली, नई

क्रियामल रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

त्रिक: 28 अगस्त 2023 **कुनाल गुप्ता** (निदेशक

आवेदक के लिए और उसकी ओर से

जोड़े पंजीकत होने की इच्छक है।

दिल्ली-110030

केंद्र सरकार के समक्ष रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,

के पते पर भी भेजें।

दिनांक: 29.08.2023

स्थान : गाजियाबाद

दि.पु./9312/दक्षिण पश्चिम/2023 कमरा नं.316, द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : अग्रवाल कार्पोरेट टावर, प्लॉट नंबर 23, 5वां तल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

कब्जा सूचना (परिशिष्ट 4) नियम 8(3)

न्नाइनैंस कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय अग्रवाल कार्पोरेट टावर, प्लॉट नंबर 23, 5वां तल, गोविंद ला सेक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में स्थित है, के प्राधिकत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों व प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 का 54) (इसमें आ अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह–कर्जदारों से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि का भूगतान उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार / गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदट्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना

जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि संपत्ति का कब्जा अधोवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत् सावधा

किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार "क्लिक्स" की बकाया राशि तथा उस पर ब्यार कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की ध

13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम एवं पता **1. सौरभ चंद्र साध पुत्र विद्या चंद्र साध,** एच. नंबर 1638—बी, द्वितीय तल, गली नंबर 03, विज पार्क, मौजपुर, नई दिल्ली –110053 पीएच नंबर 9212204015 ई–मेल आईडी –SAURAB

HCHANDRASADH@GMAIL.COM अन्य पता : जोमैटो ऑनलाइन ए—125, अपर ग्राउं फ्लोर—1, रेल विहार, हाउसिंग सोसायटी, अंकुर विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102, अन्य पता : प्लॉट नंबर ए−133, खसरा नंबर 348, फ्लैट नंबर प्रथम तल−3, एफ ⁄ एफ, रेल विहार **2. पिंकी पत्नी सौरभ चंद्र साध,** एच. नंबर 1638—बी, द्वितीय तल, गली नंबर 03, विजय पार्क

मौजपुर, नई दिल्ली —110053 अन्य पता : ए—125, अपर ग्राउंड फ्लोर—1, रेल विहार, हाउ सिंग सोसायटी, अंकुर विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102. अन्य पता : प्लॉट नंबर ए—133, खसरा नंबर 348, फ्लैट नंबर प्रथम तल—3, एफ ∕ एफ, रेल विहार, गाजियाबाद, उत्त

मांग सूचना दिनांकित : 02-12-2022 मांग सूचना की राशि : रू. 9,22,762.43 / — (रूपए नौ लाख बाईस हजार सात सौ बासठ तथ

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर ए—133, खसर नंबर 348. फ्लैट नंबर. एफ ∕ एफ−3. प्रथम तल, एलआईजी बैक साइड बिना छत, रेल विहार भादल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102, चौहददी :– पूरब प्लॉट नंबर ए—134. **उत्तर —** प्लॉट नंबर ए—132. **पश्चिम —** 30 फीट चौडी रोड. **दक्षिण** 30 फीट चौडी रोड

कब्जा की तिथि : 25–08–2023

कर्जदार / सह–कर्जदार का नाम एवं पता चित्रा मिश्रा पत्नी गौरव मिश्रा के-113 एफएफ गली नंबर 3 गौतम विहार ईस्ट दिल्ली दिल्ली .110053 ई-मेल आईडी -SWATIMISHRA9770@GMAIL.COM पीएच नंबर 8810353016 अन् ाता : जे—83 / 7—बी, गली नंबर 15, करतार नगर, गढ़ी मेंडू, उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली—110053, अन्य नता : मैसर्स एचडीबी फाइनैंशियल सर्विस 209—214, कैलाश बिल्डिंग, 26, के.जी. मार्ग, दिल्ली—110001 गौरव मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा, के–113, एफएफ, गली नंबर 3, गौतम विहार, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली .110053 पीएच नंबर 9582692318 ई—मेल आईडी —GAURAVMISHRA9582@GMAIL.COM अन्य पता : जे—83 / 7—बी, गली नंबर 15, करतार नगर, गढी मेंड, उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली—110053 अन्य पता : युको बैंक फ्लैगशिप कार्पोरेट ब्रांच, जी–एफ–एस, संसद मार्ग, दिल्ली–110001, पीएच नंब

मांग सूचना दिनांकित : 17-04-2023

मांग सूचना की राशि : रू. 14,06,043.64 / – (रूपए चौदह लाख छह हजार तेतालीस तथा पैसे चौंसव

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्लैट नंबर एफएफ 2 (बैक साइड प्रथम तल, एमआईजी बिना छत अधिकार, प्लॉट नंबर बी—107, खसरा नंबर 222 पर निर्मित, स्थित रेल विहार, हदबस्त ग्राम सादूल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसमें बेडरूम, एक ड्राइंगरूम, एक किचेन और एक टॉयलेट/बाथरूम शामिल है। चौहददी :– **पूरब** प्लॉट नंबर बी–107 ए, **उत्तर –** 25 फीट चौडी रोड, **पश्चिम –** प्लॉट नंबर बी–106, दक्षिण कब्जा की तिथि : 25-08-2023

प्राधिकृत आधकारा क्लिक्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड स्थान – दिल्ली, उत्तर प्रदेश

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के रूप में अभिज्ञात)

@ Piramal सीआईएनः एल65910एमएच1984पीएलसी032639 प्रजासन इंग्रिंग यूनिट नंबर—601, 6ठवां तल, पीरामल अमीति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई—400070, दूर. +91 22 3802 4000, शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 2, प्रथम तल, श्याम नगर, होटल डिबॅचर के निकट,

नमस्ते चौक, करनाल, हरियाणा — 132001, संपर्क व्यक्ति : 1. आशीष हांडा — 9041042572, 2. प्रवीण कुमार यादव — 9914220078, 3. रमेश कुमार — 9991613002, 4. विशाल केटेले — 9584966653

ई-नीलामी विक्रय सुचना - नया विक्रय

हेत प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, ऋणकर्ता / ओं की ओर से देय राशि की वसूली हेतु यहां निम्न उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुलपान धोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अचल संपत्ति, जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं, जो कि भौतिक अधिग्रहण के अधीन है, के ''जैसी है जहां है आधार', 'जैसी है ज 'आधार' तथा 'वहां जो कुछ है आधार' पर, क्रयार्थ प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं

ऋण काड/शाखा/ऋणकता(आ) /सह—ऋणकर्ता(ओ)/गारंटर(रों) के नाम		सपित्तं पता— अतिम	आरक्षित मूल्य	धराहर साश जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (26—08—2023)
ऋण कोड नं. 1410003009, करनाल (शाखा), जावेद जे (ऋणकर्ता), हसीना एच (सह—ऋणकर्ता 1)	दिनांक : 29–05–2023, रु. 24,15,117 / – (रुपये चौबीस लाख पंद्रह हजार एक सौ सत्रह मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, जिसका विस्तार इस प्रकार है :— शिव कॉलोनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफीदों, जींद, जींद—126112	7,50,000 / -	रु. 75,000 / – (रुपये पिचहत्तर हजार मात्र)	(रुपये बयालिस लाख सात हजार पिचहत्तर मात्र)
	, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ \	, , , ,	0 0 0

ई—नीलामी की तिथि : 30—09—2023 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक (5 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29—09—2023 को 4.00 बजे से पूर्व

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें अथवा हमें pira-

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेत् सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय संवैधानिक विक्रय सूचना

उपरोक्त उल्लिखित ऋणकर्ता 🖊 गारंटर को एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सुचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक तक उपार्जित ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भूगतान कर दें। भूगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ऋणकर्ता / गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जायेगी।

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

स्थान : हरियाणा, दिनांक : 29-08-2023

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

गोलकुंडा एल्युमीनियम एक्सट्रूजन लिमिटेड (पूर्व में एलुमेको इंडिया एक्सट्रूजन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएन : L74999DL1988PLC330668 रजि. कार्यालयः ए-2/78-बी, केशव पुरम, नई दिल्ली-110 035, भारत टेलीफोनः +91 011 4011 0240, +91 99851 21834,

ई-मेलः cs@gael.co.in, वेबसाइटः www.gael.co.in 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग

सूचना और बुक क्लोजर एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि गोलकुंडा एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30

आईएसटी वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत निर्मित नियमों के लागू प्रावधानों और समय-समय पर जारी सामान्य परिपत्रों, क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए आयोजित की कंपनी की एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सोमवार, 28 अगस्त, 2023 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी

ईमेल आईडी कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 के अनुसार कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को 35वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध होगी और इसे कंपनी की वेबसाइट www.gael.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई–वोटिंग") सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

(सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होर्त है और रविवार, 24 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे एजीएम के समय,रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग द्वार अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

वे सदस्य, जिनके पास भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य(ओं) द्वार हस्ताक्षरित पत्र जिसमें उनका नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के पास मौजूद शेयरों की संख्य के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति और कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते व प्रमाण के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति शामिल हो, को विधिवत रूप से स्कैन की गई प्रति भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द रं जल्द पंजीकृत करें। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। ईमेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई

. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है,वे आरटीए, सीडीएसएल या कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उपरोक्त बिंदू संख्य 4 में आवश्यक अनुसार अपना ईमेल और अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम वे माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रत्यय पत्र और लिंक ऐसे

सदस्यों के साथ उनके पंजीकृत ईमेल पते पर साझा किया जाएगा। . कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 से सोमवार 25 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कृते गोलकुंडा एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न लिमिटेड

स्थानः चंडीगढ

माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। **वेबसाइट पर एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की उपलब्धता**:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बाते

जिस तरह से सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, बैठक

जारी करें। यह फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर उपलब्ध है।

जिन व्यक्तियों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके कंपनी के साथ पंजीकृत हो सकते हैं।

नोटिस के नोट्स देख सकते हैं। सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में प्रश्नों या मुद्दों के लिए, सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 और 1800225533 पर संपर्क

किताब बंदी की सूचना:- आगामी तौर पर सूचना दी जाती है कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 91 और

सेबी (एलओडीआर) विनियमों 2015 के विनियम 42 के अनुवर्ती कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 39वीं वार्षिक सामान्य

कृते पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड

कंपनी सचिव एफसीएस 5046

हरदम सिंह, | दिनांक : 22—08—2023

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी

के मामले में, सदस्य कंपनी की आरटीए ईमेल आईडी, अर्थात, beetalrta@gmail.com पर लिख

वित्तीय वर्ष 2022—2023 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट लागू प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को भेज दी गई है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29.08.2023

स्मिता चतुर्वेदी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी एम. नं: ए48303

www.readwhere.com